



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932

No. 228]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

**का.आ. 268(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2246(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (एक्सटेंशन) के 38.000 कि.मी. से 74.200 कि.मी. [छसरा (मुन्द्रा)—सीराचा सेक्शन] तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 अक्टूबर, 2010 को “कच्छ मित्र” और “गुजरात वैभव” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए (विस्तारण) के 38.000 कि.मी. से 74.200 कि.मी तक (छासरा) मुद्रा (सिरावा सेक्शन) के लिए अर्जित डी जेने वाली सरवना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कच्छ	मुन्द्रा	(1) छासरा	324/2	निजी	खेती	0.0144	खीमजी देवजी जेठवालाला
				269/ P 1	निजी	खेती	0.5065	मामद फकीरमाधव अमरोया
				268	निजी	खेती	0.0072	वैलजी हनु शामजी वीरजी
				105/3	निजी	खेती	0.0486	शामजीभाई प्रेमजीभाई पटेल समरदान बाघजीभाई झुला
				104	निजी	खेती	0.0494	रुडीबेन रामजीभाई पादेवा बरारीय
				102/ P 1	निजी	खेती	0.2698	मीतेश नविनचन्द्र नागडा
				344P	निजी	खेती	0.1454	हरीजन राणा भीमा
				95/ P 1	निजी	खेती	0.2374	वशराम लक्ष्मीदास भानुसाली
				93/ P 1	निजी	खेती	0.1876	भरत मुलचन्द राजानी
				344P	निजी	खेती	0.5543	सोदा जेथुजी नाथुजी
				344P	निजी	खेती	0.0687	आयर काणा रामा
				344P	निजी	खेती	0.2761	आयर माजा चन्द्रोडावाला
			(2) मोखा	229/1	निजी	खेती	0.1613	बालुमा हनुमा वेरसलजी जीलुमा हनुमा जाडेजा सरुमा हनुमा जाडेजा भरतसिंह हनुमा जाडेजा रणजीतसिंह हनुमा जाडेजा दशरथसिंह हनुमा जाडेजा विक्रमसिंह हनुमा जाडेजा मायाबा हनुमा जाडेजा अस्मिताबा हनुमा जाडेजा किष्णाबा हनुमा जाडेजा राजुमा हनुमा जाडेजा
				229/2	निजी	खेती	0.3303	अरजण वस्ता कोली
				242/1	निजी	खेती	0.3584	रसीला घीरज सत्रा
				242/3	निजी	खेती	0.6398	अरजण वस्ता कोली
				242/2	निजी	खेती	0.1675	दामजी नाथु रामा सैया
				235	निजी	खेती	0.5561	अरजण वस्ता कोली
				241/2	निजी	खेती	1.0576	जेन्तीलाल अम्बालाल पटेल सविताबेन जेन्तीलाल पटेल धर्मन्द जेन्तीलाल पटेल हरेशकुमार जेन्तीलाल पटेल किंजलबेन हरेशकुमार पटेल
				241/1	निजी	खेती	0.3820	वनिताबेन सुरेशकुमार अग्रवाल
				239/2	निजी	खेती	0.2531	मोगीलाल नेमचन्द महता तुलसीभाई करशनभाई सोलंकी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				239/4	निजी	खेती	0.0715	वीणाबेन सुरेशकुमार अग्रवाल आयुशी सुरेशकुमार अग्रवाल राहुल सुरेशकुमार अग्रवाल
				250/1	निजी	खेती	0.3779	दीपक लालजीभाई ठक्कर
				255/2	निजी	खेती	0.2067	किशोरकुमार लालजी चौथानी
				232	निजी	खेती	0.4996	सुमति घनजी केनीया नीरव घनजी केनीया नर्मदाबेन पुत्री असमल थावर केनीया पत्नी कानजी एल महेश्वरी ज्योत्सनाबेन पुत्री असमल थावर केनीया पत्नी प्रेमजी एल महेश्वरी
				231/1	निजी	खेती	0.1679	मंजुलाबेन किर्तीकुमार ठक्कर
				233/1	निजी	खेती	0.0330	किर्तीकुमार मुलजी दिपककुमार मुलजी ठक्कर
				240/1	निजी	खेती	0.4481	मितेषचन्द्र नविनभाई नागडा
				240/2	निजी	खेती	0.3016	जाडेजा जीतुभा हरीसिंह
		(3) कुन्दाडी		89	निजी	खेती	0.7743	दामजी मुलजी पासु
				177	निजी	खेती	0.5543	हरेशभाई शामजीभाई पटेल
		(4) मोरारा		164/P 1,2	निजी	खेती	0.1418	ईलाबेन हरेशभाई सारठीया दाउद अबदुल्ला
				174/1	निजी	खेती	0.2899	राजेन्द्र मोरारजी देढीया नितीन मोरारजी देढीया लक्ष्मीबेन मोरारजी देढीया
				166/2	निजी	खेती	0.1394	सुरेन्द्र सिंह मेरुभा झाला
				167/2	निजी	खेती	0.2700	देवेन्द्र सिंह मेरुभा झाला
				169/2	निजी	खेती	0.0461	हंसबाई वासणजी देढीया हरीलाल वासणजी देढीया खुशालचंद्र वासणजी देढीया
				4/1	निजी	खेती	0.4722	भरतसंग विरमजी जाडेजा
				67	निजी	खेती	0.0370	घवलभाई अरविंदभाई मेहता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5) परागपर	130/1	निजी	खेती	1.7252	जवेरबाई डुंगरसिंह गाला प्रेमजी डुंगरसिंह गाला किशोरसिंह डुंगरसिंह गाला नेमचंद डुंगरसिंह गाला किर्ती डुंगरसिंह गाला
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0308	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0312	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0314	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0318	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0320	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0320	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0323	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0326	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0329	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0332	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0335	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0338	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0341	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	सार्वजनिक प्लॉट	0.0372	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	119	0.0283	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	120	0.0301	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	121	0.0269	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	122	0.0190	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	115	0.0248	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	116	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	117	0.0237	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	118	0.0207	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	111	0.0215	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	112	0.0230	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	113	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				131 P	निजी	114 P	0.0197	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	108	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	109	0.0219	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	110	0.0226	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	103	0.0234	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	104	0.0211	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	105 P	0.0241	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	107 P	0.0068	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	106 P	0.0003	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	100 P	0.0155	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	101	0.0200	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	102	0.0244	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	95	0.0252	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	96	0.0193	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	97 P	0.0128	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	92 P	0.0092	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	93	0.0181	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	94	0.0263	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	87	0.0271	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	88	0.0174	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	89 P	0.0067	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	84	0.0029	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	85	0.0163	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	86	0.0282	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	79	0.0289	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	80	0.0155	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	77 P	0.0110	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	70 P	0.0077	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	69 P	0.0308	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	78 P	0.0170	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	78 P	0.0135	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	67 P	0.0024	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	68	0.0320	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	59	0.0327	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	60 P	0.0001	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	57	0.0071	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	58	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	47	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	48 P	0.0079	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	45 P	0.0042	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	46	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	35	0.0268	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	36 P	0.0016	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	34 P	0.0247	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	25 P	0.0221	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	24 P	0.0184	निशांत वासुदेव ठक्कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				131 P	निजी	15 P	0.0225	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	14 P	0.0121	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	8-P	0.0095	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	7- P	0.0057	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	3-P	0.0032	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	2-P	0.0001	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	ओपन प्लॉट	0.0363	निशांत वासुदेव ठक्कर
				131 P	निजी	इन्टरनल रोड	0.5593	निशांत वासुदेव ठक्कर
				130/2	निजी	खेती	0.2732	सोमबाई केशा हरीजन
				125/ P 1	निजी	बिन खेती	0.0025	भगवान महावीर पशुसेवा केंद्र
				126	निजी	खेती	0.1033	दुर्गरसिंह चैम्पसिंह बुआ लक्ष्मीचंद चैम्पसिंह बुआ लक्ष्मीबाई चैम्पसिंह बुआ
				160/1	निजी	खेती	0.5756	चन्द्रजीतसिंह भीखुभा गोहील
				159 P	निजी	8	0.0446	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	9	0.0450	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	10	0.0450	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	11	0.0450	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	12	0.0450	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	13	0.0447	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	14	0.0171	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				159 P	निजी	15	0.0216	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	16 P	0.0204	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	17 P	0.0163	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	18 P	0.0120	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	19 P	0.0077	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	20 P	0.0035	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	7-P	0.0402	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	6	0.0339	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	5	0.0277	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	4	0.0214	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	3	0.0152	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	2	0.0094	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				159 P	निजी	1	0.0056	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				159 P	निजी	इन्टरनल रोड	0.4728	हीरालाल हंसराज पटेल भवानजी घनजी पटेल अरविंद करमसिंह पटेल चंदुलाल घनजी पटेल
				45/1	निजी	खेती	0.0165	दीलीपभाई जयतिलाल गोहील
				46	निजी	खेती	0.6159	श्री टोडा अरनाथ जैन श्वेताम्बर भूर्तिपूजक टस्ट
				48/3	निजी	खेती	0.1781	रामभाई हरजीभाई मोकरीया
				52	निजी	खेती	0.5310	अयुब अब्दुल्ला रायमा
				53/1,2	निजी	खेती	0.0260	अयुब अब्दुल्ला रायमा कान्तिलाल जे गणात्रा विजयभाई पी गणात्रा
			(6) बराया	153/2	निजी	खेती	0.1422	श्रीमती प्रभाबेन रामजी दीलीपकुमार रामजी शाह राजेशकुमार रामजी शाह हीरेनकुमार हंसराज शाह प्रमजी हंसराज शाह विशनजी हंसराज शाह
			(7) समाधोघा	308/1	निजी	खेती	0.0756	वजुभाई वेसलसी जाडेजा
				308/2	निजी	खेती	0.0403	वजुभाई वेसलसी जाडेजा
				307	निजी	खेती	0.3912	जाडेजा मदनसिंह करशनजी जाडेजा सातुभा करशनजी जाडेजा वनराजसिंह करशनजी
				303/ P 1	निजी	खेती	0.5261	देवराज सुमर चरण
				285/1	निजी	बिन खेती	1.4833	नेमजी करमशी गंगर
				282/1	निजी	खेती	0.1530	सुमरा हारुन मामद सुमरा अलीमामद हारुन
				283/1	निजी	बिन खेती	0.1213	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				283/1	निजी	रोड मार्जिन	0.2476	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				283/1 P	निजी	सार्वजनिक प्लोट 4	0.0730	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				283/1 P	निजी	सार्वजनिक प्लोट 3	0.0744	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				283/1 P	निजी	सार्वजनिक प्लोट 2	0.0765	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				283/1 P	निजी	सार्वजनिक प्लोट 1	0.0963	नेनीबा कन्वाजी जाडेजा
				289	निजी	खेती	0.2793	मधुभा मानसंगजी जाडेजा



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				290/2	निजी	खेती	0.0806	राजेशसिंह मनमोहनसिंह गोहील लालजी शिवजी गोरसीया
				290/1	निजी	Plot-1 P	0.0153	भलुभा भीमजी सोढा
				290/1	निजी	Plot-2 P	0.0121	भलुभा भीमजी सोढा
				290/1	निजी	Plot-3 P	0.0099	भलुभा भीमजी सोढा
				290/1	निजी	Plot-4 P	0.0058	भलुभा भीमजी सोढा
				290/1	निजी	Plot-5 P	0.0026	भलुभा भीमजी सोढा
				290/1	निजी	रोड मार्जिन	0.1760	भलुभा भीमजी सोढा
				293	निजी	बिन खेती	0.0714	भलुभा भीमजी सोढा
				294/1	निजी	खेती	0.1772	भलुभा भीमजी सोढा
				294/2	निजी	खेती	0.0164	भलुभा भीमजी सोढा
				291/1	निजी	खेती	0.1973	जाडेजा हुकुमतसिंह अनवरसिंह
				291/1 P	निजी	Plot-1	0.0058	जाडेजा हुकुमतसिंह अनवरसिंह
				291/1 P	निजी	रोड मार्जिन	0.0768	जाडेजा हुकुमतसिंह अनवरसिंह
				291/1 P	निजी	C.P. 1	0.0591	जाडेजा हुकुमतसिंह अनवरसिंह
				291/1 P	निजी	इन्टरनल रोड	0.0020	जाडेजा हुकुमतसिंह अनवरसिंह
			(8) मोटी भुजपुर	321	निजी	खेती	0.2832	लाखमसिंह रतनसिंह पटेल
				344/2	निजी	खेती	0.1344	वाडीलाल पुंजाभाई पटेल
				344/ P 2	निजी	खेती	0.0110	लाघाभाई पटेल
				344/1	निजी	खेती	0.0214	नर्मदाबेन शामजी पटेल
				344/3	निजी	खेती	0.1165	हरदास खीमजी धोलु
				319	निजी	खेती	1.0519	रमेशलाल हंसराज पटेल
				320	निजी	खेती	0.8420	चन्दसिंह हमीरजी जाडेजा प्रहलादसिंह विक्रमसिंह जाडेजा रंजनबा सम्भुसिंह जाडेजा लाखा विरम बाटी
				345	निजी	खेती	0.5830	जयंतिलाल जेठा पटेल
				726	निजी	खेती	0.1530	वशरामभाई खेताभाई कणबी
				314/ P 1	निजी	खेती	0.2274	वीरजी देशर जोशी
				314/ P 2	निजी	खेती	0.3111	विनेश वीरजी जोशी
				317/1	निजी	खेती	0.5837	पला विशराम चरण
				318	निजी	खेती	0.4459	हरदास खीमजी पटेल
				316	निजी	खेती	0.5461	भीमजी खेता पटेल
				351/1	निजी	खेती	0.2142	हरखचंद चुनीलाल प्रेमजी दिव्याबेन हरखचंद
				351/2	निजी	खेती	0.2587	सतिष सामजी भेदा मणीबेन सामजी भेदा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				363/3	निजी	खेती	0.2181	सतिष सामजी भेदा
				352	निजी	खेती	0.4081	सतिष सामजी भेदा मणीबेन सामजी भेदा
				312/2	निजी	खेती	0.5829	सतिष सामजी भेदा मणीबेन सामजी भेदा
				713/82	निजी	खेती	0.0202	लक्ष्मण राणसी गढवी प्रफुलचन्द्र नविनचन्द्र संघवी
				713/P64	निजी	खेती	0.0202	दीपककुमार प्रविणभाई ठक्कर
				457	निजी	खेती	0.0237	हीरजी कानजी सावला
				713/14	निजी	खेती	0.0683	करसन वसरांम कानानी
				713/61	निजी	खेती	0.3772	मावजी खीमजी जोशी
				471	निजी	खेती	0.0992	वेलजी नरसी कुरपाल शाह
				473/1	निजी	खेती	0.2970	बचु देवराज जोशी करसन देवराज जोशी
				475/P	निजी	खेती	0.9392	श्री जेसलपीर की जगह मगनभाई पुंजाभाई सोलंकी
				485	निजी	खेती	0.0740	दानसींगजी भानजी वाघेला
				478/1	निजी	खेती	0.0254	धारशी करु हरीजन लक्ष्मीबाई करु हरीजन कानबाई राजा हरीजन रमेश राजा हरीजन खेतबाई राजा हरीजन अतुल राजा हरीजन
				478/2	निजी	खेती	0.3116	नरसी रतनसी शाह
				480	निजी	खेती	0.7652	नेनबाई गोसर पशु शाह
				479/1	निजी	खेती	0.2685	नविन मावजी भाणजी शाह
				479/2	निजी	खेती	0.0132	तेजबाई रतनशी सैया शाह धारशी गोसर देढीया शाह शिवजी गोसर देढीया शाह रविलाल गोसर देढीया
				510/1	निजी	खेती	0.0722	लक्ष्मीबेन कानजी शाह राधवजी कानजी शाह
				510/2	निजी	खेती	0.2683	तेजबाई रतनशी सैया शाह धारशी गोसर देढीया शाह शिवजी गोसर देढीया शाह रविलाल गोसर देढीया
				510/3	निजी	खेती	0.3636	हुसैन सलु कुम्हार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				510/5	निजी	खेती	0.0171	नर्मदाबेन रविलाल मोटा चुनिलाल खीमजी राजगौर इन्दिराबेन हरीलाल राजगौर हीरबाई ब्रजलाल गौर
				508 P	निजी	78	0.0169	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	79	0.0161	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	80	0.0151	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	81	0.0140	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	82	0.0130	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	83	0.0120	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				508 P	निजी	84 P	0.0106	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	85 P	0.0045	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	75 P	0.0062	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	74 P	0.0022	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	73 P	0.0046	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	72 P	0.0070	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				508 P	निजी	71 P	0.0094	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				508 P	निजी	इन्टरनल रोड	0.0326	डाया जाका हरिजन वेलजी जाका हरिजन मेघजी जाका हरिजन तेजबाई जाका हरिजन खेतबाई जाका हरिजन वेजबाई जाका हरिजन
				507	निजी	खेती	1.0729	शम्भु मेघजी राजगौर
				535	निजी	खेती	0.0041	मंगलमाई लालजी कोरशी लालजी हीरबाई लालजी विमलाबेन लालजी झवेरबेन लालजी शान्ता लालजी शाह देवशी लालजी शाह
				537	निजी	खेती	0.8331	अनील हीरजी चेडा
				539	निजी	खेती	0.8588	खेतबाई हंसराज शाह
				558/3	निजी	खेती	0.6594	सतिश सामजी भेदा
				557/1	निजी	खेती	0.4106	जोधजी लखाजी जाडेजा
				557/2	निजी	खेती	1.2946	ठाकरशी मेघजी सेठीया
				536	निजी	1	0.0167	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	9	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	10	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	11	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	12	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	13	0.0140	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	14	0.0092	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	15	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	16	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	17	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	18	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	19	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	20	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	21	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				536	निजी	22	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	23	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	24	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	25	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	26	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	36	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	37	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	38	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	45	0.0122	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	46	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	47	0.0126	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	48	0.0128	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	49	0.0131	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	50	0.0134	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	51	0.0136	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	55	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	56	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	57	0.0124	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	2/P	0.0122	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	3/P	0.0067	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	4/P	0.0011	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	7/P	0.0052	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	8/P	0.0112	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	27/P	0.0121	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	28/P	0.0072	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	29/P	0.0013	पालीबाई रामा जीवण रबारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				536	निजी	33/P	0.0015	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	34/P	0.0077	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	35/P	0.0123	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	42/P	0.0001	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	43/P	0.0039	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	44/P	0.0105	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	107/P	0.0042	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	52/P	0.0008	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	53/P	0.0070	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	54/P	0.0122	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	सार्वजनिक प्लोट	0.0481	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				536	निजी	इन्टरनल रोड	0.1696	पालीबाई रामा जीवण रबारी
				541/P 1	निजी	2	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	3	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	4	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	5	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	6	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	7	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	8	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/P 1	निजी	9	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	10	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	11	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	12	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	13	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	14	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	39	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	40	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	41	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	42	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	43	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	44	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	45	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	46	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/P 1	निजी	47	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	48	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	49	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	50	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	86	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	87	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	88	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	89	0.0124	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	1/P	0.0940	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	15/P	0.0790	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	16/P	0.0049	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	17/P	0.0018	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	37/P	0.0063	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	38/P	0.0082	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/P 1	निजी	51/P	0.0071	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	52/P	0.0038	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	53/P	0.0007	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	83/P	0.0021	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	84/P	0.0056	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	85/P	0.0083	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	90/P	0.0079	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	91/P	0.0045	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	92/P	0.0010	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	130/P	0.0011	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	इन्टरनल रोड	0.0855	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				541/P 1	निजी	सार्वजनिक प्लोट	0.0504	देसर मोमाया गीलवा पुनशी देवराज गीलवा सवराज देवराज गीलवा
				575	निजी	खेती	0.1180	खीमाईबाई काना मानशी कानाणी
				574/1	निजी	खेती	0.5131	खीमाईबाई काना मानशी कानाणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				574/2	निजी	खेती	0.1950	रणछोड वीरा बणबी
				573	निजी	खेती	0.3383	रुक्शाना सिधिक सांग
				572/1	निजी	खेती	0.1132	हमु मुरु गढवी
				555/1	निजी	1	0.0096	वासुदेव रामदास ठक्कर
				555/1	निजी	2	0.0156	वासुदेव रामदास ठक्कर
				555/1	निजी	3	0.0152	वासुदेव रामदास ठक्कर
				555/1	निजी	4	0.0167	वासुदेव रामदास ठक्कर
				555/1	निजी	93/P	0.0043	वासुदेव रामदास ठक्कर
				555/1	निजी	ओपन प्लोट	0.0536	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	5	0.0176	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	6	0.0135	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	7	0.0135	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	8	0.0185	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	9	0.0216	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	10	0.0134	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	11	0.0260	वासुदेव रामदास ठक्कर
				556/3	निजी	ओपन प्लोट	0.0972	वासुदेव रामदास ठक्कर
				552/1	निजी	कोमन प्लोट 1	0.0305	वासुदेव रामदास ठक्कर
				552/1	निजी	कोमन प्लोट 2	0.0178	वासुदेव रामदास ठक्कर
				552/1	निजी	कोमन प्लोट 3	0.0104	वासुदेव रामदास ठक्कर
				552/1	निजी	इन्टरनल रोड	0.0041	वासुदेव रामदास ठक्कर
				572/2	निजी	खेती	0.0328	हमु मुरु गढवी
			(9) देसलपर	404	निजी	खेती	0.1372	शान्तिनाल रतनशी शाह विसनजी रतनशी शाह
				570/P as per 7/12 570/4	निजी	खेती	0.1885	मुकेशकुमार शान्तिलाल भवानजी शाह
				383/1	निजी	खेती	0.0970	रामजी मेघर आयर
				378	निजी	खेती	0.0900	रीतेश पोपटलाल चेडा
				569/ P 2	निजी	खेती	0.0330	हेतुभा महीपत सिंह जाडेजा
				569/ P 1	निजी	खेती	0.0186	माक्जी भुला कणबी
				355/2	निजी	खेती	0.2835	पुनसी लधुभा
				356	निजी	बिन खेती	0.0986	धरतशी मनजी पटेल
				264/1	निजी	खेती	0.0118	बीनाबेन मनसुखलाल मट
				355/1	निजी	114 P	0.0053	हीरजी लखमसी वीरारीया मंजुलाबेन हीरजी लखमसी वीरारीया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				355/1	निजी	95 P	0.0018	हीरजी लखमसी वीरारीया मंजुलाबेन हीरजी लखमसी वीरारीया
				355/1	निजी	ओपन प्लॉट	0.0016	हीरजी लखमसी वीरारीया मंजुलाबेन हीरजी लखमसी वीरारीया
				260	निजी	खेती	0.2354	धनजी धेलाभाई शाह
				269/4	निजी	खेती	0.2958	बीनाबेन मनसुखलाल भट
				269/2	निजी	खेती	0.2768	डुंगरसी नरसी शाह हीरजी नरसी शाह
				269/3	निजी	बिन खेती	0.1952	मगा जाखु हरीजन
				269/1	निजी	खेती	0.5065	बीनाबेन मनसुखलाल भट
				274/1	निजी	खेती	0.0335	लाछबाई अरजण सुराभाई चारण
				241/1	निजी	खेती	0.5726	समीर हरजी शाह
				247/3	निजी	खेती	0.0255	पटेल शान्तिनाथ गोविन्द खीमजी
				247/2	निजी	बिन खेती	0.1029	मगा जाखु हरिजन
				273	निजी	खेती	0.3609	स्वामी सर्वसत्ताधी आनंद गुरुस्वामी महादेवानन्द सरस्वती
			(10) मोटी खाखर	45	निजी	खेती	1.2227	जसल कान्तीलाल चेडा

[ फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/डीबीएफओ/11012/11/2007 ]

एस. नरेन्द्र, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2011

**S.O. 268(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S. O. 2246(E), dated the 13<sup>th</sup> September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.8A(Extn.) on the stretch of land from km 38.000 to km 74.200 Chhasra (Mundra)-Siracha Section) in District Kachchh in the State of Gujarat;

And, whereas the substance of the said notification has been published in "Kutch Mitra" and "Gujarat Vaibhav", both dated the 06<sup>th</sup> October, 2010, under sub-section(3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same has been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 38.000 to Km. 74.200 (Chhasra) Mundra (Siracha Junction Section) of the National Highway Number - 8A (Extension) in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kachchh	Mundra	(1) Chhasara	324/2	Pvt.	Agr.	0.0144	Khimji Devji Jetha gala
				269/ P 1	Pvt.	Agr.	0.5065	Mamad Fakirmamad Agariya
				268	Pvt.	Agr.	0.0072	Velji Habhu Samji Virji
				105/3	Pvt.	Agr.	0.0486	Samjibhai Premjibhai Patel Samarthdan Vaghjibhai zula
				104	Pvt.	Agr.	0.0494	Rudiben Ramjibhai madeva Barariya
				102/ P 1	Pvt.	Agr.	0.2698	Mitesh Navinchandra Nagda
				95/ P 1	Pvt.	Agr.	0.2374	Vishrambhai Laxmidas Bhanushali
				93/ P 1	Pvt.	Agr.	0.1876	Bharat Mulchand Rajani
			(2) Mokha	229/1	Pvt.	Agr.	0.1613	Balubha Hanubha Versalji, Jilubha Hanubha Jadeja, Surubha Hanubha Jadeja, Bharatsingh Hanubha Jadeja, Ranjitsinh Hanubha Jadeja, Dasharath Hanubha Jadeja, Vikramsinh Hanubha Jadeja, Mayaba Hanubha Jadeja, Asmitaba Hanubha Jadeja, Krishnaba Hanubha Jadeja, Rajubha Hanubha Jadeja
				229/2	Pvt.	Agr.	0.3303	Arjan Vasta Koli
				242/1	Pvt.	Agr.	0.3584	Rashila Dhiraj Satra
				242/3	Pvt.	Agr.	0.6398	Arjan Vasta koli
				242/2	Pvt.	Agr.	0.1675	Damji Nathu Rama saiya
				235	Pvt.	Agr.	0.5561	Arjan Vasta koli
				241/2	Pvt.	Agr.	1.0576	Jentilal Ambalal Patel, Savitaben Jentilal Patel, Dharmendra Jentilal Patel, Hareshkumar Jentilal Patel, Kinjalben Hareshkumar Patel
				241/1	Pvt.	Agr.	0.3820	Vanitaben Sureshkumar Agrawal
				239/2	Pvt.	Agr.	0.2531	Bhogilal Nemchand Mehata, Tulshi bhai Karsanbhai Solanki
				239/4	Pvt.	Agr.	0.0715	Vinaben Sureshkumar Agrawal, Aayushi Sureshkumar Agrawal, Rahul Sureshkumar Agrawal
				250/1	Pvt.	Agr.	0.3779	Deepak Laljibhai Thakkar
				255/2	Pvt.	Agr.	0.2067	Kishorkumar Lalji Chothani
				232	Pvt.	Agr.	0.4996	Sumati Dhanji Keniya, Nirav Dhanji Keniya, Narmadaben D/O Aasmal Thavar Keniya W/O Kanji L. Maheshwari, Jyotsnaben D/O Aasmal Thavar Keniya W/O Premji L. Maheshwari
				231/1	Pvt.	Agr.	0.1679	Smt. Manjulaben Kirtikumar Thakkar
			(3) Kundrodi	89	Pvt.	Agr.	0.7743	Damji Mulji Pasu
				177	Pvt.	Agr.	0.5543	Hareshbhai Shamjibhai Patel
			(4) Bhorara	164/ P 1,2	Pvt.	Agr.	0.1418	Elaben Hirenbhai Sorthiya, Daud Abdulla
				174/1	Pvt.	Agr.	0.2899	Rajendra Morarji Dedhiya, Nitin Morarji Dedhiya, Laxmiben Morarji Dedhiya
				166/2	Pvt.	Agr.	0.1394	SurendraSinh Merubha Zala
				167/2	Pvt.	Agr.	0.2700	DewendrSinh Merubha Zala

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				169/2	Pvt.	Agr.	0.0461	Hansbai Vashanji dedhiya, Harilal Vashanji dedhiya, Khushalchandra Vashanji dedhiya, Chandrakant Vashanji dedhiya.
				1-Apr	Pvt.	Agr.	0.4722	Bharatsang Viramji Jadeja
				67	Pvt.	Agr.	0.0370	Dhavalbhai Arvindbhai Mehta
			(5) Pragpar	130/1	Pvt.	Agr.	1.7252	Zaverbai Dungarsinh Gala, Premji Dungarsinh Gala, Kishor Dungarsinh Gala, Nemchand Dungarsinh Gala, Kirti Dungarsinh Gala,
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0308	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0312	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0314	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0318	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0320	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0320	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0323	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0326	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0329	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0332	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0335	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0338	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0341	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Sarvjanik Plot	0.0372	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	119	0.0283	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	120	0.0301	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	121	0.0269	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	122	0.0190	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	115	0.0248	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	116	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	117	0.0237	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	118	0.0207	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	111	0.0215	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	112	0.0230	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	113	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	114 P	0.0197	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	108	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	109	0.0219	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	110	0.0226	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	103	0.0234	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	104	0.0211	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	105 P	0.0241	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	107 P	0.0068	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	106 P	0.0003	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	100 P	0.0155	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	101	0.0200	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	102	0.0244	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	95	0.0252	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	96	0.0193	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	97 P	0.0128	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	92 P	0.0092	Nishant Vashudev Thakkar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				131 P	Pvt.	93	0.0181	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	94	0.0263	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	87	0.0271	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	88	0.0174	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	89 P	0.0067	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	84	0.0029	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	85	0.0163	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	86	0.0282	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	79	0.0289	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	80	0.0155	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	77 P	0.0110	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	70 P	0.0077	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	69 P	0.0308	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	78 P	0.0170	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	78 P	0.0135	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	67 P	0.0024	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	68 P	0.0320	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	59 P	0.0327	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	60 P	0.0001	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	57	0.0071	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	58	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	47	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	48	0.0079	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	45	0.0042	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	46	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	35	0.0268	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	36	0.0016	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	34 P	0.0247	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	25 P	0.0221	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	24 P	0.0184	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	15 P	0.0225	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	14 P	0.0121	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	8	0.0095	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	7	0.0057	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	3	0.0032	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	2	0.0001	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Open Plot	0.0363	Nishant Vashudev Thakkar
				131 P	Pvt.	Intenal Roads	0.5593	Nishant Vashudev Thakkar
				130/2	Pvt.	Agr.	0.2732	Sombai Kesa Harijan
				125/ P 1	Pvt.	N.A.	0.0025	Bhagvan Mahavir pasuseva kendr
				126	Pvt.	Agr.	0.1033	Dungarsinh Champsinh Baua, Laxmichan Champsinh Baua, Laxmibai Champsinh Baua,
				160/1	Pvt.	Agr.	0.5756	Chandrijtsinh Bhikhubha Gohil
				159 P	Pvt.	8	0.0446	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	9	0.0450	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	10	0.0450	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				159 P	Pvt.	11	0.0450	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	12	0.0450	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	13	0.0447	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	14	0.0171	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	15	0.0216	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	16	0.0204	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	17	0.0163	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	18	0.0120	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	19	0.0077	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	20	0.0035	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	7	0.0402	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	6	0.0339	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	5	0.0277	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	4	0.0214	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	3	0.0152	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel

4/11/11-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				159 P	Pvt.	2	0.0094	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	1	0.0056	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				159 P	Pvt.	Inter road	0.4728	Hiralal Hanshraj Patel, Bhavanji Dhanji Patel, Arvind Karmsinh Patel, Chandulal Dhanji Patel
				45/1	Pvt.	Agr.	0.0165	Dilipbhai Jentilal Gohil
				46	Pvt.	Agr.	0.6159	Shree Toda Aranathjain Shwetamber Murtipujak Trust
				48/3	Pvt.	Agr.	0.1781	Rambhai Harjibhai Mokariya
				52	Pvt.	Agr.	0.5310	Ayub Abdullah Raima
				53/1,2	Pvt.	Agr.	0.0260	Aub Abdulla Raima, Kantilal J Ganatra, Vijay P. Ganatra
				163 7*12 - 162	Pvt.	Agr.	0.0772	Shree Pragpar Gram Panchayat
				164 7*12 - 162	Pvt.	Agr.	0.3198	Shree Pragpar Gram Panchayat
			(6) Baraya	153/2	Pvt.	Agr.	0.1422	Smt. Prabhaben Ramji, Dilipkumar Ramji Shah, Rajeshkumar Ramji Shah, Hirenkumar Ramji Shah, Damji Hansraj Shah, Premji Hansraj Shah, Vishanji Hansraj Shah
			(7) Samaghogha	308/1	Pvt.	Agr.	0.0756	Vajubha Vesalji Jadeja
				308/2	Pvt.	Agr.	0.0403	Vajubha Vesalji Jadeja
				307	Pvt.	Agr.	0.3912	Jadeja Madanshih Karsanji, Jadeja Satubha Karsanji, Jadeja Vanrajsinh Karsanji
				303/ P 1	Pvt.	Agr.	0.5261	Devraj Sumar Charan
				285/1	Pvt.	N.A.	1.4833	Nemaji Karmashi Gangar
				282/1	Pvt.	Agr.	0.1530	Sumra Harun Mamad, Sumra Alimamad Harun
				283/1	Pvt.	N.A.	0.1213	Naniba Kanchaji Jadeja
				283/1	Pvt.	Road Margin	0.2476	Naniba Kanchaji Jadeja
				283/1 P	Pvt.	C.P.4	0.0730	Naniba Kanchaji Jadeja
				283/1 P	Pvt.	C.P.3	0.0744	Naniba Kanchaji Jadeja
				283/1 P	Pvt.	C.P.2	0.0765	Naniba Kanchaji Jadeja
				283/1 P	Pvt.	C.P.1	0.0963	Naniba Kanchaji Jadeja
				289	Pvt.	Agr.	0.2793	Madhubha Mansang Jadeja
				290/2	Pvt.	Agr.	0.0806	Rajeshshih Manmohansinh Gohil, Lalji Shivaji Gorshiya
				290/1	Pvt.	Plot-1 P	0.0153	Bhalubha Bhimji Sodha
				290/1	Pvt.	Plot-2 P	0.0121	Bhalubha Bhimji Sodha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				290/1	Pvt.	Plot-3 P	0.0099	Bhalubha Bhimji Sodha
				290/1	Pvt.	Plot-4 P	0.0058	Bhalubha Bhimji Sodha
				290/1	Pvt.	Plot-5 P	0.0026	Bhalubha Bhimji Sodha
				290/1	Pvt.	Road Margin	0.1760	Bhalubha Bhimji Sodha
				293	Pvt.	N.A.	0.0714	Sho Pipes Ltd. Co
				294/1	Pvt.	Agr.	0.1772	Sho Pipes Ltd. Co
				294/2	Pvt.	Agr.	0.0164	Sho Pipes Ltd. Co
				291/1	Pvt.	Agr.	0.1973	Jadeja Hakumatshih Anwarshih
				291/1 P	Pvt.	Plot-1	0.0058	Jadeja Hakumatshih Anwarshih
				291/1 P	Pvt.	Road Margin	0.0768	Jadeja Hakumatshih Anwarshih
				291/1 P	Pvt.	C.P.1	0.0591	Jadeja Hakumatshih Anwarshih
				291/1 P	Pvt.	Antrik Road	0.0020	Jadeja Hakumatshih Anwarshih
			(8) Moti Bhujpur	321	Pvt.	Agr.	0.2832	Lakhamsinh Ratanshi Patel
				344/2	Pvt.	Agr.	0.1344	Vadilal Punjabhai Patel
				344/ P 2	Pvt.	Agr.	0.0110	Ladhabhai Patel
				344/1	Pvt.	Agr.	0.0214	Narmadaben Shamji Patel
				344/3	Pvt.	Agr.	0.1165	Hardas Khimji Dholu
				319	Pvt.	Agr.	1.0519	Rameshlal Hanshraj Patel
				320	Pvt.	Agr.	0.8420	Chandrasinh Hamirji Jadeja, Prahladsinh Virkumarsinh Jadeja, Ranjanba Shambhusinh Jadeja, Lakha Viram Bati
				345	Pvt.	Agr.	0.5830	Jayantilal Jetha Patel
				726	Pvt.	Agr.	0.1530	Vishrambai Khetabhai Kanbi
				314/ P 1	Pvt.	Agr.	0.2274	Virji Deshar Joshi
				314/ P 2	Pvt.	Agr.	0.3111	Vinesh Virji Joshi
				317/1	Pvt.	Agr.	0.5837	Pala Vishram Charan
				318	Pvt.	Agr.	0.4459	Hardas Khimji Patel
				316	Pvt.	Agr.	0.5461	Bhimji Kheta Patel
				351/1	Pvt.	Agr.	0.2142	Harkhchand Chunilat Premji, Divyaben Harkhchand
				351/2	Pvt.	Agr.	0.2587	Satish Shamji Bheda, Maniben Shamji Bheda
				363/3	Pvt.	Agr.	0.2181	Satish Shamji Bheda
				352	Pvt.	Agr.	0.4081	Satish Shamji Bheda, Maniben Shamji Bheda
				312/2	Pvt.	Agr.	0.5829	Satish Shamji Bheda, Maniben Shamji Bheda
				713/82	Pvt.	Agr.	0.0202	Lakhman Ranshi Gadhavi, Prafulchandra Navinchandra Sanghvi
				713/P64	Pvt.	Agr.	0.0202	Dipakkumar Pravinbhai Thakkar
				457	Pvt.	Agr.	0.0237	Hirji Kanji Sawla
				713/14	Pvt.	Agr.	0.0683	Karshan Vishram Kanani
				713/61	Pvt.	Agr.	0.3772	Mavji Khimji Joshi
				471	Pvt.	Agr.	0.0992	Velji Narshi Kurpad Shah
				473/1	Pvt.	Agr.	0.2970	Bhachu Devraj Joshi, Karshan Devraj Joshi
				475/1/2	Pvt.	Agr.	0.9392	Shri Jeshalpir ni Jagya Magan Punja Solanki
				485	Pvt.	Agr.	0.0740	Dansang Bhanji Vaghela

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				478/1	Pvt.	Agr.	0.0254	Dharshi Karu Harijan, Lakhamibai Karu Harijan, Kanbai Raja Harijan, Ramesh Raja Harijan, Khetbai Raja Harijan, Atul Raja Harijan
				478/2	Pvt.	Agr.	0.3116	Narshi Ratanshi Shah
				480	Pvt.	Agr.	0.7652	Nenbai Gosar Pasu Shah
				479/1	Pvt.	Agr.	0.2685	Navin Mavji Bhanji Shah
				479/2	Pvt.	Agr.	0.0132	Tejbai Ratanshi Saiya, Shah Dharsi Gosar Dedhiya, Shah Shivaji Gosar Dedhiya, Shah Ravilal Gosar Dedhiya,
				510/1	Pvt.	Agr.	0.0722	Laxmiben Kanji Shah, Raghvaji Kanji Shah
				510/2	Pvt.	Agr.	0.2683	Tejbai Ratanshi Saiya, Shah Dharsi Gosar Dedhiya, Shah Shivaji Gosar Dedhiya, Shah Ravilal Gosar Dedhiya,
				510/3	Pvt.	Agr.	0.3636	Husen Salu Kumbhar
				510/5	Pvt.	Agr.	0.0171	Narmadaben Ravilal Mota, Chunilal Khimaji Rajgor, Indiraben Harilal Rajgor, Hirbai Vrajlal Gor
				508 P	Pvt.	78	0.0169	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	79	0.0161	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	80	0.0151	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	81	0.0140	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	82	0.0130	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	83	0.0120	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				508 P	Pvt.	84 P	0.0106	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	85 P	0.0045	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	75 P	0.0002	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	74 P	0.0022	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	73 P	0.0046	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	72 P	0.0070	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	71 P	0.0094	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				508 P	Pvt.	Internal Roads	0.0326	Daya Jaka Harijan, Velji Jaka Harijan, Meghji Jaka Harijan, Tejbai Jaka Harijan, Khetbai Jaka Harijan, Vejbai Jaka Harijan
				507	Pvt.	Agr.	1.0729	Shambhu Megaji Rajgor
				535	Pvt.	Agr.	0.0041	Mangalbhai Lalji, Korshi Lalji, Hirbai Lalji, Vimlaben Lalji, Zaverben Lalji, Shanta Lalji Shah, Devshi Lalji Shah
				537	Pvt.	Agr.	0.8331	Anil Hiraji Chheda
				539	Pvt.	Agr.	0.8588	Khetbai Hanshraj Shah
				558/3	Pvt.	Agr.	0.6594	Satish Shamji Bheda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				557/1	Pvt.	Agr.	0.4106	Jodhaji Lakhaji Jadeja
				557/2	Pvt.	Agr.	1.2946	Thakarshi Meghji Sethiya
				536	Pvt.	1	0.0167	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	9	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	10	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	11	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	12	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	13	0.0140	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	14	0.0092	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	15	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	16	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	17	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	18	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	19	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	20	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	21	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	22	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	23	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	24	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	25	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	26	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	36	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	37	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	38	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	45	0.0122	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	46	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	47	0.0126	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	48	0.0128	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	49	0.0131	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	50	0.0134	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	51	0.0136	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	55	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	56	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	57	0.0124	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	2/P	0.0122	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	3/P	0.0067	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	4/P	0.0011	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	7/P	0.0052	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	8/P	0.0112	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	27/P	0.0121	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	28/P	0.0072	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	29/9	0.0013	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	33/P	0.0015	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	34/P	0.0077	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	35/P	0.0123	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	42/P	0.0001	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	43/P	0.0039	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	44/P	0.0105	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	107/P	0.0042	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	52/P	0.0008	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	53/P	0.0070	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	54/P	0.0122	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	Sarvajanik Plot	0.0481	Palibai Rama Jivan Rabari
				536	Pvt.	Intenal Roads	0.1696	Palibai Rama Jivan Rabari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/ P 1	Pvt.	2	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	3	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	4	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	5	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	6	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	7	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	8	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	9	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	10	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	11	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	12	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	13	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	14	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	39	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	40	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	41	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	42	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/ P 1	Pvt.	43	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	44	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	45	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	46	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	47	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	49	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	50	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	66	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	87	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	88	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	89	0.0124	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	1/P	0.0940	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	15/P	0.0790	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	16/P	0.0049	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	17/P	0.0018	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	37/P	0.0063	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	38/P	0.0062	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	51/P	0.0071	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	52/P	0.0038	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	53/P	0.0007	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	83/P	0.0021	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	84/P	0.0056	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	85/P	0.0083	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				541/ P 1	Pvt.	90/P	0.0079	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	91/P	0.0045	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	92/P	0.0010	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	130/P	0.0011	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	Internal Road	0.0855	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				541/ P 1	Pvt.	Sarvajanik Plot	0.0504	Deshar Momaya Gilva, Punshi Devraj Gilva, Savraj Devaraj Gilva
				575	Pvt.	Agr.	0.1180	Khimaibai Kana Manshi Kanani
				574/1	Pvt.	Agr.	0.5131	Khimaibai Kana Manshi Kanani
				574/2	Pvt.	Agr.	0.1950	Ranchod Vira Kanbi
				573	Pvt.	Agr.	0.3383	Rukhshana Sidhik Sangh
				572/1	Pvt.	Agr.	0.1132	Habhu Muru Gadhavi
				555/1	Pvt.	1	0.0096	Vasudev Ramdas Thakkar
				555/1	Pvt.	2	0.0156	Vasudev Ramdas Thakkar
				555/1	Pvt.	3	0.0152	Vasudev Ramdas Thakkar
				555/1	Pvt.	4	0.0167	Vasudev Ramdas Thakkar
				555/1	Pvt.	93/P	0.0043	Vasudev Ramdas Thakkar
				555/1	Pvt.	Open Plot	0.0536	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	5	0.0176	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	6	0.0135	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	7	0.0135	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	8	0.0185	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	9	0.0216	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	10	0.0134	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	11	0.0260	Vasudev Ramdas Thakkar
				556/3	Pvt.	Open Land/P	0.0972	Vasudev Ramdas Thakkar
				552/1	Pvt.	Comon Plot-1	0.0305	Vasudev Ramdas Thakkar
				552/1	Pvt.	Comon Plot-2	0.0178	Vasudev Ramdas Thakkar
				552/1	Pvt.	Comon Plot-3	0.0104	Vasudev Ramdas Thakkar
				552/1	Pvt.	Antrik Rasta	0.0041	Vasudev Ramdas Thakkar
				572/2	Pvt.	Agr.	0.0328	Habhu Muru Gadhvi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(9) Deshalpar	404	Pvt.	Agr.	0.1372	Shantilal Ratanshi Shah Visanji Ratanshi Shah
				570/P as per 7/12 570/4	Pvt.	Agr.	0.1885	Mukeshkumar Shantilal Bhavanji Shah
				383/1	Pvt.	Agr.	0.0970	Ramji Meghar Ayar
				378	Pvt.	Agr.	0.0900	Ritesh Popatlal Chheda
				569/ P 2	Pvt.	Agr.	0.0330	Hetubha Mahipatshih Jadeja
				569/ P 1	Pvt.	Agr.	0.0186	Mavji Bhula Kanbi
				355/2	Pvt.	Agr.	0.2835	Punshi Ladhuhba
				356	Pvt.	N.A.	0.0986	Dharmshi Manji Patel
				264/1	Pvt.	Agr.	0.0118	Beenaben Mansukhlal Bhatt
				355/1	Pvt.	114 P	0.0053	Hirji Lakhmashi Virariya, Manjulaben Hirji Lakhmshi Virariya
				355/1	Pvt.	95 P	0.0018	Hirji Lakhmashi Virariya, Manjulaben Hirji Lakhmshi Virariya
				355/1	Pvt.	Open Land	0.0016	Hirji Lakhmashi Virariya, Manjulaben Hirji Lakhmshi Virariya
				260	Pvt.	Agr.	0.2354	Dhanji Ghelabhai Shah
				269/4	Pvt.	Agr.	0.2958	Beenaben Mansukhlal Bhatt
				269/2	Pvt.	Agr.	0.2768	Dungarshi Narshi Shah Hiraji Narshi Shah
				269/3	Pvt.	N.A.	0.1952	Maga Jakhu Harijan
				269/1	Pvt.	Agr.	0.5065	Beenaben Mansukhlal Bhatt
				274/1	Pvt.	Agr.	0.0335	Lachhbai Arjan Surabhai Charan
				241/1	Pvt.	Agr.	0.5726	Samir Hirji Shah
				247/3	Pvt.	Agr.	0.0255	Patel Shantilal Govind Khimji
				247/2	Pvt.	N.A.	0.1029	Maga Jakhu Harijan
				273	Pvt.	Agr.	0.3609	Mahadeva Sarasvati
			(10) Moti Khakhar	45	Pvt.	Agr.	1.2227	Jeshal Kantilal Chheda

[F. No. NHA/DBFO/11012/11/2007]

S. NARENDRA, Director